



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, अक्टूबर 7—अक्टूबर 13, 2012, शनिवार/आश्विन 15—आश्विन 21, 1934
No. 21] NEW DELHI, OCTOBER 7—OCTOBER 13, 2012, SATURDAY/ASVINA 15—ASVINA 21, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2012

का.नि.आ. 85.—आईसी-67843 ए कैप्टन अमरदीप सिंह के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमान-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड, पचमढी की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है। केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को समादेशक आफिसर, पचमढी स्टेशन द्वारा लिखित में आदेश द्वारा नाम द्वारा नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसर को उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के खंड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में छावनी बोर्ड, पचमढी के नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

क्रम सं.	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	आईसी-68374-पी कैप्टन फुरकान अहमद	21 फरवरी, 2012

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एण्ड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th September, 2012

S.R.O. 85.—Whereas one vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Pachmarhi by virtue of resignation of IC-67843A Capt-Amardeep Singh and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-

Chief, Central Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of Section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officer specified in column (2) of The Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding, Pachmarhi Station on the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (4) of Section 12 of the said Act, as nominated member of Cantonment Board, Pachmarhi, namely :—

Sl. No.	Name of the nominated members	Date of nomination
(1)	(2)	(3)
1.	IC-68374-P Capt. Furqan Ahmed	February 21, 2012

[F. No. 14(1)/2011/D(Q&C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2012

का.नि.आ. 86.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन विभागीय कैटिन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2000, सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन, विभागीय कैटिन (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 और रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन, (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1999 को, जहां तक उनका संबंध सहायक रसोइया और मेस वेंटर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालयों सेना, नौसेना, वायु सेना रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन, रक्षा मंत्रालय के विभागीय कैटिन में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायु सेना) रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन, विभागीय कैटिन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, और भूतपूर्व, सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक प्रबंधक-सह- भंडारी	14* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु. 5200—20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400 टिप्पण : वह कैटीन टाइप 'ए' 'बी' 'सी' 'डी', '2-ए' और '3-ए' में कर्तव्यों को करने के लिए 250 रु. प्रति मास और कैटीन टाइप '4-ए' और उससे ऊपर की कैटीन टाइप में कर्तव्य करने के लिए 500 रु. प्रति मास विशेष भत्ता भी प्राप्त करेगा/करेगी।	चयन	21 से 28 वर्ष के लिए टिप्पण 1 : सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष तक और शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम. या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में स्नातक सहित बहीखाता या भंडारण में एक वर्षीय डिप्लोमा।	नहीं	सीधे भर्ती की जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं।
(ख) अनुभव—किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडारों या लेखाओं को संभालने का तीन वर्ष का अनुभव।		

टिप्पण 1—अर्हता (अर्हताएं), अन्यथा सुअर्हित
अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार
शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित

(7)

जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :-

- (i) ऐसे लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की है।
- (ii) ऐसे हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके साथ भंडारों या लेखाओं को संभालने का दो वर्ष का अनुभव हो और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले लिपिक के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हता अर्थात् वाणिज्य विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य है।

प्रतिनियुक्ति :**केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :-**

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की है ;
- (iii) जिसके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति

लागू नहीं होता।

(पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय — अध्यक्ष
2. रक्षा मंत्रालय के प्रत्येक एकीकृत मुख्यालयों (सेना, नौसेना, वायु सेना) और रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालयों से उप निदेशक की प्रास्थिति का एक-एक अधिकारी — सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. लिपिक	52* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन रु. 1900	अचयन	18 से 25 वर्ष टिप्पण 1 : सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। टिप्पण 3 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
(क) किसी वाणिज्य विषय सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य	आयु-नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं।
(ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के समरूप 35 शब्द प्रति मिनट या 30 शब्द प्रति मिनट)	शैक्षणिक अर्हताएं— मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	

(7)

टिप्पण 1—अर्हता (अर्हताएं), अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)

50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति :-

ऐसे कैदीन परिचारक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थानों से कैदीन परिचारक से लिपिक पद पर प्रोन्नति के लिए संगठनात्मक व्यवहार, संवाद कौशल तथा लेखा विधि का दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति**केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :-**

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;
(ii) ऐसे कैदीन परिचारक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; और जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति
(पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय

—अध्यक्ष

(13)

लागू नहीं होता।

(12)

2. रक्षा मंत्रालय के प्रत्येक एकीकृत मुख्यालयों (सेना, नौसेना, वायु सेना) और रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालयों से उप निदेशक की प्राप्ति का एक-एक अधिकारी

— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हलवाई-सह-रसोइया	34* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

(10)	(11)
------	------

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :-

ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन बैंड 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित भोजन प्रबंध आदि में प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा,

(ii) किसी सरकारी विभाग/उपक्रम में अधिमानतः दो वर्ष का अनुभव और अर्हता।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति

लागू नहीं होता।

(पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष
2. रक्षा मंत्रालय के प्रत्येक एकीकृत मुख्यालयों (सेना, नौसेना, वायु सेना) और रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालयों से उप निदेशक की प्रास्थिति का एक-एक अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक हलवाई-सह-रसोइया	34* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित अननुसूचित	वेतन बैंड-1, 5200—20200रु. + ग्रेड वेतन 1900रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष। टिप्पण 1 : सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित भोजन प्रबंध आदि में प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा व्यक्तियों के	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष प्रोन्नत लिए कुछ नहीं।
(ख) अनुभव-एक वर्ष		
(ग) खाना पकाने, जिसके अन्तर्गत स्वच्छता का रख-रखाव भी है, के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिए विभाग द्वारा व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा।		

टिप्पण 1— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)

सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

ऐसे कैदीन परिचारक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है। खाना पकाने जिसके अन्तर्गत स्वच्छता का रख रखाव भी है, के संदर्भ में विभाग द्वारा एक व्यावसायिक परीक्षण संचालित किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति**केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—**

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
(ii) ऐसे कैदीन परिचारक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; और हलवाई-सह-रसोइया के सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव है।
(iii) जिसके पास भोजन प्रबंध में प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा है।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति

(पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय के प्रत्येक एकीकृत मुख्यालयों (सेना, नौसेना, वायु सेना) और रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालयों से उप निदेशक की प्रास्थिति का एक-एक अधिकारी

—अध्यक्ष

—सदस्य

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कैदीन परिचारक (तत्कालीन चाय/कॉफी बनाने वाला, बैरा, वाश ब्याय, सहायक	207* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु. 5200—20200 + ग्रेड वेतन रु. 1800	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष टिप्पण 1 : सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में और पांच वर्ष तक शिथिल

(1)	(6)
रसोइया और मेस वेटर के समूह 'घ' पद #) (#भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को सफाईवाला की श्रेणी में विद्यमान पदधारी भी सम्मिलित है)	की जा सकती है। टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता।

(पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो
निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव
और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय,
रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष
- रक्षा मंत्रालय के प्रत्येक एकीकृत मुख्यालयों (सेना,
नौसेना, वायु सेना) और रक्षा कर्मचारिवृन्द
मुख्यालयों से उप निदेशक की प्रास्थिति का
एक-एक अधिकारी —सदस्य

[फा. सं. ए/34036/सीएओ/आर-II]

के. एम. पी. सिंह, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (एमपीआर)

• New Delhi, the 27th September, 2012

S.R.O. 86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, Departmental Canteens (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2000, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, Departmental Canteens (Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 2000, and Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, (Group 'D' Posts) Recruitment Rules 1999 in so far as they relate to the posts of Assistant Cook and Mess Waiter, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in the Departmental Canteens in the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisations, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisations, Departmental Canteens (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

3. Method of Recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay/scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Manager-cum-Store Keeper	14* (2012) *Subject to variation dependent on workload etc.	General Central Service (Group 'C', Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200—20200 + Grade Pay ₹ 2400 Note : He/She will also draw Special Allowance of Rs. 250 p.m. for attending to duties in Canteens Type 'A', 'B', 'C', 'D', '2-A' and '3-A' and Rs. 500 p.m. in Canteens Type '4-A' and above.	Non-Selection	21—28 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government and further relaxation for five years as in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar, Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
---	---	-----------------------------

(7)	(8)	(9)
<p>(a) B. Com from a recognized university or</p> <p>Graduate in any discipline from a recognized university with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping.</p> <p>(b) Experience—Three years in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts.</p>	No	Two years for Direct Recruits, NIL for promotees.

Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
--	---

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	<p>Promotion :</p> <p>(i) Clerks with at least eight years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200-20,200 + Grade pay Rs. 1900.</p> <p>(ii) Halwai-cum-Cook with five years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200-20200 + Grade pay Rs. 2000 with two years of experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualification as prescribed for direct recruited Clerk i.e. 12th class pass or equivalent with Commerce.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis, or</p> <p>(ii) with at least eight years regular service in the pay Band-1, Rs. 5200-20,200 + Grade Pay of Rs. 1900.</p> <p>(iii) possessing educational qualification and experience as prescribed for Direct Recruit under column (8).</p>

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding

(11)

this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputationists is fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee :—
(for considering confirmation/ Promotion) consisting of :—

Not applicable

1. Deputy Chief Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence —Chairman
2. Officers of the status of Deputy Director each from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air) and Defence Staff Headquarters —Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Clerk	52* (2012) *Subject to variation dependent on workload etc.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200— 20200 + Grade Pay ₹ 1900.	Non-Selection	18-25 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government and further relaxation for five years as in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. Note 3 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
(7)	(8)	(9)			
(a) 12th Class Pass or equivalent with Commerce. (b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. or 30	Age - No Educational —Matriculation Qualifications or equivalent	Two years for Direct Recruits, NIL for promotees.			

(7)

w.p.m. correspond to 10500 Key Depression per hour/9000 Key Depreciation per hour on an average of 5 key Depression per hour on an average of 5 key depressions for each word)

Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10)

50% by promotion failing which by deputation and 50% by direct recruitment.

(11)

Promotion :

Canteen Attendant with at least three (3) years regular service in the PB-1, Rs. 5200-20,200 plus Grade Pay Rs. 1800

A two week training on Organizational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be mandatory for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from Institute of Secretarial Training and Management or any other recognized Institutes.

Deputation:

Officers of the Central Government—

- (i) holding analogous posts on regular basis, or
- (ii) canteen Attendant with at least three (3) years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20,200 plus Grade Pay Rs. 1800 and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (8).

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fiftysix years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee :—
(for considering confirmation/ Promotion) consisting of :—

1. Deputy Chief Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence

—Chairman

(13)

Not applicable.

(12)

2. Officers of the status of Deputy Director each from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air) and Defence Staff Headquarters

—Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Halwai-cum-Cook	34* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200— 20200 + Grade Pay ₹ 2000	Non-Selection	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Nil
	(10)			(11)	

By promotion failing which by Deputation.

Promotion :

Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three (3) years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20,200 plus Grade Pay Rs. 1900.

Deputation:

Officers of the Central Government—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or
- (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three (3) years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20,200 plus Grade Pay Rs. 1900 and
- (b) possessing the following qualifications and experience:
- (i) 10th Class Pass from recognised Board with a certificate/diploma in catering, etc.
- (ii) Experience—Two years in a Government Department/Undertaking preferred and possessing the qualification.

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputations is fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)				(13)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee :— (for considering promotion) consisting of :—				Not applicable	
1. Deputy Chief Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence				—Chairman	
2. Officers of the status of Deputy Director each from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air) and Defence Staff Headquarters				—Members	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Halwai-cum-Cook	34* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200—20200 + Grade Pay ₹ 1900	Non-Selection	18-25 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government and further relaxation for five years as in the case of Schedule Castes and Schedule Tribes. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.
(7)			(8)	(9)	
(a) 10th Class Pass from a recognised Board with a certificate/diploma in catering etc.			No	Two years for Direct Recruits, NIL for promotees.	
(b) Experience—One Year					
(c) A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the department to assess the suitability of the candidate.					
Note : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.					
(10)			(11)		
By promotion failing which by deputation and failing both by Direct Recruitment.			Promotion : Canteen Attendant in the Pay Band-1, Rs. 5200—20,200+		

(11)

Grade Pay Rs. 1800 with atleast three years regular service.

A trade test shall be got conducted by the department with reference to the cooking including maintenance of hygiene etc.

Deputation :

Officers of the Central Government—

- (i) holding analogous posts on regular basis, or
- (ii) Canteen Attendant in the Pay Band-1, Rs. 5200—20,200 plus Grade Pay Rs. 1800 with atleast three years regular service having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook.
- (iii) possessing certificate/diploma in catering.

Note 1 : The period of of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee :—
(for considering promotion/confirmation) :—

Not applicable.

1. Deputy Chief Administrative Officer, Office of the Joint Secretary (Trg.) and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence —Chairman
2. Officers of the status of Deputy Director each from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air) and Defence Staff Headquarters —Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Canteen Attendant (Erstwhile variation Group 'D' dependent Posts# of Tea/Coffee Maker, Bearer, Wash Boy, Assistant Cook and Mess Waiter)	207* (2012) *Subject to on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200—20200 + Grade Pay ₹ 1800	Not applicable	18-25 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government and further relaxation for five years as in the case of Schedule Castes and Schedule Tribes. Note 2 : In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall

*(including existing incumbents in the grade of Safaiwala on the date of notification of RRs.)

(6)

be the last date upto which the
Employment Exchange is asked
to submit the names.

(7)

(8)

(9)

Matriculation or equivalent from a recognised
Board.

Not applicable

Two years

(10)

(11)

Direct Recruitment

Not applicable

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee :—
(for considering confirmation) :—

Not applicable

1. Deputy Chief Administrative Officer, Office of
the Joint Secretary (Trg.) and Chief Administrative
Officer, Ministry of Defence

—Chairman

2. Officers of the status of Deputy Director each
from Integrated Headquarters of Ministry of
Defence (Army, Navy, Air) and Defence Staff
Headquarters

—Member

[F. No. A/34036/CAO/R-II]

K. M. P. SINGH, Dy. Chief Administrative Officer (MPR)